



**गौतस्करों से मुठभेड़ जवाबी फायरिंग में 01 गौतस्कर बदमाश घायल सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहे व रिट्ज कार बरामद ।**

अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमति सुनीति पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व, श्री अजय प्रताप सिंह अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी हसनपुर श्री श्रेष्ठा ठाकुर के निकट पर्यवेक्षण में थाना हसनपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 04.06.2021 की सुबह मुठभेड़ के दौरान 03 अभियुक्तों को अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त व एक आरक्षी गोली लगने से घायल।

अवगत कराना हैं कि आज दिनांक 04-06-2021 की प्रातः थाना हसनपुर पुलिस द्वारा "थाना डिडौली क्षेत्र में कुछ बदमाशों द्वारा फायरिंग कर रिट्ज कार ग्रे कलर रजि0न0 DL3C BU 2303 से भागने" की सूचना मिलने पर आने जाने वाले वाहनों की चैकिंग की जा रही थी कि सुबह समय करीब 07.35 बजे बजे सम्भल रोड कालाखेडा से आगे हसनपुर सैदनगली बार्डर पर कस्बा उझारी की तरफ से आ रही एक गाडी को टार्च की रोशनी से चैकिंग हेतु रुकने का इशारा किया जिस पर गाडी में सवार चालक बिना रुके हसनपुर की तरफ भागने लगे। टार्चों की रोशनी में रिट्ज कार में आगे 02 व्यक्ति व पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा कार का पीछा करने पर अपने का घिरा देख चालक ने रिट्ज गाडी को चीनी मिल से आगे बागों में जा रही कच्ची चकरोड पर मोड़ दिया जो आगे चलकर रेत में फस गयी। कार में सवार तीनों बदमाशों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर जान से मारने कि नियत से फायर किये जिसमे का0 1015 कपिल पंवार हाथ में गोली लगने से घायल हो गये। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गयी जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया जिसके 02 अन्य साथी को पुलिस टीम द्वारा घेर घोटकर गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाश ने अपना नाम नदीम पुत्र कल्लू निवासी ग्राम मन्सूरपुर थाना असमौली जनपद सम्भल बताया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के कब्जे से 02 तमंचे 315 बोर, 04 खोखा कारतूस 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर व 01 नाजायज चाकू बरामद हुये। घायल आरक्षी कपिल पंवार व अभियुक्त नदीम को उचित उपचार हेतु जिला अस्पताल अमरोहा रेफर किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना हसनपुर पर मु0अ0स0 230/21 धारा 307 भादवि, मु0अ0स0 231/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम बनाम नदीम, मु0अ0स0 232/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम बनाम फैजान व मु0अ0स0 233/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम बनाम रईस पंजीकृत किया गया।

**पूछताछ विवरण:-**

गिरफ्तार अभियुक्त फैजान व रईस उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम सब साथ मिलकर गौवंशीय पशुओं की तस्करी करते हैं और आर्थिक लाभ लेने हेतु उनको काटकर उनका मांस बाजार में बेच देते हैं। हमारा एक गैंग है जिसमें 1. नदीम पुत्र कल्लू 2. इमरान पुत्र उस्मान 3. फईम उर्फ मोटा पुत्र कल्लू 4. बबलू पुत्र कल्लू निवासीगण ग्राम मन्सूरपुर थाना असमौली जनपद सम्भल 5. सरफराज उर्फ सद्दू पुत्र इरफान निवासी करुला थाना कटघर जनपद मुरादाबाद व हम दोनों हैं। हम लोग आवारा गौवंशीय पशुओं को गाडी में भरकर ले जाते हैं और उनको काटकर उनका मांस बाजार में बेच देते हैं। कल रात हमारा गैंग ग्राम तावाई के जंगल में रिट्ज कार व मोटर साइकिल से आया था तथा गौवंशीय पशु को भी काटने के लिए साथ लाए थे। जब हम लोग गौवंशीय पशु को काटने की तैयारी कर रहे थे कि तभी डिडौली पुलिस आ गई पुलिस से बचने के लिए हम फायरिंग करते हम पांच लोग कार से भाग गए और इमरान और फहीम वही रह गये। ग्राम चौधरपुर के पास बबलू व सरफराज को हमने रिट्ज कार से उतार दिया और कहा कि तुम लोग भी कहीं जाकर छुप जाओ। हम तीन लोग रिट्ज कार से उझारी रोड होते हुए हसनपुर की तरफ जा रहे थे कि चीनी मिल के पास चैकिंग के

दौरान पुलिस ने हमारी कार को रोका तो गिरफ्तारी से बचने के लिए सड़क के किनारे बाग में कच्चे रास्ते से अंदर की ओर भागे जहां पर पुलिस से मुठभेड़ हो गई अपने आप को गिरा देखकर हमने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्यवाही में हमारा एक साथी घायल हो गया और हम दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया। आज से करीब 8-10 दिन पहले हमारे गैंग के साथी एक कैंटर गाड़ी लेकर बुरावली के जंगल के पास से आवारा पशुओं को भरकर जिसमें लगभग 11-12 सांड थे और 3-4 गाय थी जिनको काटने के लिए कनेटा रोड वन विभाग का कीकर का जंगल में लाए थे तभी वहां पुलिस आ गई थी तब हम सभी पशुओं और गाड़ी को वहीं पर छोड़ कर भाग गए थे। हम लोग ये काम सम्भल, मुरादाबाद, अमरोहा व आसपास के जिलों में करते हैं वहां पर हम लोगों को अच्छे दाम मिल जाते हैं।

उल्लेखनीय है कि घायल अभियुक्त नदीम उपरोक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जिस पर पुलिस मुठभेड़, गौकशी करने, गैंगस्टर व अवैध शस्त्र रखने के करीब 01 दर्जन से ज्यादा अभियोग पंजीकृत है।



### गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. नदीम पुत्र कल्लू निवासी ग्राम मन्सूरपुर थाना असमौली जनपद सम्भल।
2. फैजान पुत्र यासीन निवासी ग्राम मन्सूरपुर थाना असमौली जनपद सम्भल।
3. रईस पुत्र रफीक निवासी ग्राम रमपुरा थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

### बरामदगी:-

1. 02 तमंचे 315 बोर, 04 खोखा कारतूस 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर व 01 नाजायज चाकू।
2. कार रिटज ग्रे कलर रजि0न0 DL3C BU 2303।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त नदीम :-

1. मु0अ0स0 230 /2021 धारा 307 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा (पुलिस मुठभेड़)।
2. मु0अ0स0 231 /2021 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना हसनपुर जनपद अमरोहा।
3. मु0अ0स0 69/2021 धारा 406,506 भादवि थाना डिडौली जनपद अमरोहा।
4. मु0अ0स0 107/2019 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना आदमपुर जनपद अमरोहा।
5. मु0अ0स0 108/2019 धारा 420,467,468,471 भादवि थाना आदमपुर जनपद अमरोहा।
6. मु0अ0स0 263/2019 धारा 307 भादवि थाना आदमपुर जनपद अमरोहा।
7. मु0अ0स0 265/2019 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना आदमपुर जनपद अमरोहा।
8. मु0अ0स0 48/2019 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना सैदनगली जनपद अमरोहा।
9. मु0अ0स0 118/2019 धारा 307,427 भादवि थाना सैदनगली जनपद अमरोहा।
10. मु0अ0स0 119/2019 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना सैदनगली जनपद अमरोहा।
11. मु0अ0स0 57/2019 धारा 429 भादवि व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा।
12. मु0अ0स0 302/2019 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0 थाना सैदनगली जनपद अमरोहा।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त फैजान:-

1. मु0अ0स0 230 /2021 धारा 307 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा (पुलिस मुठभेड) ।
2. मु0अ0स0 232 /2021 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त रईस:-

1. मु0अ0स0 230 /2021 धारा 307 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा (पुलिस मुठभेड) ।
2. मु0अ0स0 233 /2021 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।

**अभियुक्तगणों के शेष अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।**

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय तोमर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
2. उ0नि0 श्री गजेन्द्र पाल शर्मा थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
3. उ0नि0 श्री आन्नदपाल थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
4. उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
5. उ0नि0 श्री शेर सिंह थापा थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
6. का0 1015 कपिल पंवार थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
7. का0 91 कुलदीप सैनी थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
8. का0 18 अरुण कुमार थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
9. का0 341 गौरव कुमार थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
10. का0 350 अंकित थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
11. का0चा0 1046 पवन थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।

